

डिमांड पूरी करने के लिए दिल्ली में बन रही थी अवैध शराब, 5 गिरफ्तार

लॉकडाउन के दौरान शराब की डिमांड पूरी करने के लिए कुछ लोगों ने वजीरपुर इलाके में शराब की भट्टी लगाई हुई थी.

Hindi News

दिल्ली एवं हरियाणा



दिल्ली पुलिस ने वजीरपुर इलाके से बरामद की नकली शराब.

Written By: [नीरज गौड़](#) - [@NeerajGaur](#)

Edited By: [जी न्यूज़ डेस्क](#)

Updated: May 14, 2020, 10:14 AM IST

खास बातें

1. पुलिस ने 5 आरोपियों को वजीरपुर बी-ब्लॉक की झुग्गियों से दबोचा
2. दिल्ली के वजीरपुर इलाके में शराब की भट्टी लगाई गई थी
3. मंडी से सड़े हुए फल लाकर शराब बनाते थे- आरोपी

नई दिल्ली: लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है. जहां शराब की भट्टी लगाकर नकली शराब बनाई जा रही थी. [दिल्ली पुलिस \(Delhi Police\)](#) ने यहां से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों की पहचान गोपाल गुप्ता (32) शिव गुप्ता (40) पुलेंद्र (54) राधे श्याम (34) और राम नाथ शाहू (39) के रूप में हुई है.

डीसीपी विजयंता आर्या ने बताया कि अशोक विहार पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि लॉकडाउन के दौरान शराब की डिमांड पूरी करने के लिए कुछ लोगों ने वजीरपुर इलाके में शराब की भट्टी लगाई हुई थी. सूचना के बाद टीम ने मौके पर छापेमारी की, जहां भारी मात्रा में कच्ची और शराब तैयार की जा रही थी. मौके से एक भट्टी और शराब बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला सामान बरामद हुआ. जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों को वजीरपुर बी-ब्लॉक की झुग्गियों से दबोच लिया है.

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से यह काम कर रहे थे. मंडी से सड़े हुए फल लाकर शराब बनाते थे. बता दें कि ऐसी शराब की भट्टियों से अक्सर हादसे होते रहते हैं, कच्ची शराब पीने की वजह से लोगों की मौत तक हो जाती है.

Source: <https://zeenews.india.com/hindi/india/delhi-haryana/delhi-police-arrested-5-people-who-make-fake-alcohol-amid-lockdown-due-to-covid19/681031>